

58 पेटी नकली शराब के साथ पांच युवक गिरफ्तार



Publish Date: Tue, 08 Dec 2020 06:47 PM (IST) Author: Jagran

हंसडीहा थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह दुमका-हंसडीहा हाइवे पर रामगढ़ मोड़ के पास अवैध तरीके से शराब लेकर बिहार जा रहे पिकअप वैन के चालक समेत पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोग धनबाद जिले के कतरास के रहने वाले हैं। जब्त की गई शराब नकली बताई जा रही है। हंसडीहा पुलिस के अनुसार मंगलवार की दोपहर हंसडीहा थाना में जानकारी देते हुए जरमुंडी के एसडीपीओ उमेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी आकृष्ट अमन को सूचना मिली कि कुछ लोग बाहर से शराब लाकर हंसडीहा हाइवे होकर बिहार की ओर जा रहे हैं।

संवाद सहयोगी, हंसडीहा : हंसडीहा थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह दुमका-हंसडीहा हाइवे पर रामगढ़ मोड़ के पास अवैध तरीके से शराब लेकर बिहार जा रहे पिकअप वैन के चालक समेत पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोग धनबाद जिले के कतरास के रहने वाले हैं। जब्त की गई शराब नकली बताई जा रही है।

हंसडीहा पुलिस के अनुसार मंगलवार की दोपहर हंसडीहा थाना में जानकारी देते हुए जरमुंडी के एसडीपीओ उमेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी आकृष्ट अमन को सूचना मिली कि कुछ लोग बाहर से शराब लाकर हंसडीहा हाइवे होकर बिहार की ओर जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने शक के आधार पर रामगढ़ मोड़ के पास एक पिकअप वैन को रोककर तलाशी ली तो उसमें 58 कार्टून यानी शराब की 720 बोतलें बरामद हुईं। वहीं पूछताछ में चालक अमजद खान ने बताया कि शराब धनबाद के चार लोगों के कहने पर बिहार के भागलपुर ले जा रहा था। चारों लोग आगे-आगे ऑल्टो कार से चल रहे हैं। पुलिस ने पीछा कर ऑल्टो कार को जब्त कर चार अन्य आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में युवकों ने बताया कि बोकारो से शराब पिकअप वैन में लोड कर बिहार पहुंचाना था। गिरफ्तार आरोपियों में जितेंद्र कुमार यादव, गोविंद साव, अजय कुमार सिंह, सतीश शर्मा व पिकअप चालक अमजद खान के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है। जब्त शराब की होगी जांच

एसडीपीओ ने बताया कि शराब की बोतल देखकर लग रहा है कि जब्त की गई सारी शराब नकली है। पुलिस के पास जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्पाद विभाग को शराब का नमूना देकर जांच कराई जाएगी। बिहार में सप्लाई करते नकली शराब

बिहार में शराबबंदी के बाद से झारखंड के कारोबारी वहां नकली शराब की सप्लाई करते हैं। झारखंड के सीमा से सटे इलाकों में बेरोकटोक शराब भेजने का सिलसिला जारी है। नकली शराब को बिहार भेजने का यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। आज तक इतनी बड़ी मात्रा में शराब नहीं पकड़ी गई। आखिर शराब धनबाद के कई थाना से होकर यहां तक पहुंची। दुमका में वैन के चालक को जामा, जरमुंडी व रामगढ़ थाना पार करना पड़ा। किसी भी थानेदार को इसकी भनक तक नहीं लगी।

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/dumka-five-young-arrested-with-duplicate-liquor-21146671.html>